



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार, 15 सितम्बर, 2010 / 24 भाद्रपद, 1932

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, शिमला जिला शिमला, हि0प्र0

कार्यालय आदेश

शिमला, 28 अगस्त, 2010

**संख्या पीसीएच-एसएमएल (4)244/85-देवठी.**—यह कि श्रीमति रेखा देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत देवठी, विकास खण्ड ठियोग के विरुद्ध इस कार्यालय में प्राप्त शिकायत के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया गया कि ग्राम पंचायत देवठी के पक्ष में आदेश संख्या पीसीएच-एसएमएल(5)/2008-12388-90 दिनांक 29.1.2009 के तहत पंचायत घर के निर्माण हेतु पंचायत के संयुक्त खाता सं0 27393 में से रिलीज की गई मु0 50,000/-रुपये की राशि के आंकड़ों में छेड़-छाड़ करके जारी किए गए उक्त रिलीज ऑर्डर में मु0 60,000/-रुपये दर्शाकर उन द्वारा जाली दस्तावेज तैयार किया गया। मूल रूप में जारी रिलीज आर्डर में

अंकित राशि के आंकड़े के ऊपर पुनः लिखने/छेड़-छाड़ करने के परिणामस्वरूप उक्त प्रधान द्वारा बैंक सं० 4940605 दिनांक 7.2.2009 के अन्तर्गत बैंक से 10,000/—रुपये की राशि की निकासी अवैध रूप से की गई। श्रीमति रेखा देवी, प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव सं० शुन्य दिनांक 7.2.2009 के अन्तर्गत अधिकृत हस्ताक्षरियों को पंचायत खाता में से 50,000/—रुपये की राशि के स्थान पर मु० 60,000/—रुपये की राशि को निकालने हेतु प्राधिकृत किया गया है जिस हेतु उक्त बैठक की अध्यक्ष होने के नाते इस त्रुटि को दुरुस्त करने का उत्तरदायित्व प्रधान का बनता था।

यह की जाली दस्तावेज तैयार करके अवैध रूप से 10,000/— रुपये की अधिक राशि बैंक से निकालने अथवा कथित तौर पर गवन करने हेतु उक्त प्रधान को इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 17.7.2010 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करके अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। उपरोक्त प्रधान से इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी ठियोग के माध्यम से प्राप्त उत्तर दिनांक 10.8.2010 का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त पाया गया है कि कथित आरोपों को आंशिक रूप से स्वीकारते हुए उन द्वारा छेड़-छाड़ किए गए वर्णित प्रलेख की हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच करवाने की मांग की गई है जिसे वर्तमान परिस्थितियों में कानूनी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि विशेषज्ञों की राय यदि जनहित में वांछित अथवा आवश्यक होगी तो प्रस्तावित जांच समिति उसे अपने स्तर पर लेने हेतु सक्षम होगी।

यह कि नियमित जांच काल में आशंका है कि प्रधान अपने कार्यकाल में उनके विरुद्ध लगे आरोपों से सम्बन्धित रिकार्ड में फेरबदल अथवा गवाहों को प्रभावित कर सकती है, अतः उन्हें जांच काल की अवधि में पंचायत रिकार्ड की पहुंच व उनके प्रभाव को कम करने की दृष्टि से उन्हें पद से निलम्बित करना जनहित में उचित है।

अतः मैं अधोहस्ताक्षरी उन शक्तियों के अधीन जो मुझमें हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1994 की धारा 145 की उपधारा (1) पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142(1) के अन्तर्गत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए उक्त श्रीमति रेखा देवी प्रधान, ग्राम पंचायत देवठी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला को उपरोक्त कृत्यों के लिए प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूं तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वह अपने पद की मोहर तथा उनके पास ग्राम पंचायत की कोई चल-अचल सम्पत्ति व अन्य कोई अभिलेख हों तो उसे तुरन्त पंचायत सचिव/सहायक, ग्राम पंचायत देवठी को सौंप दें।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
जिला पंचायत अधिकारी,  
शिमला जिला शिमला।

## कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हि0प्र0

## अधिसूचना

शिमला, 3 सितम्बर, 2010

**संख्या पीसीएच-एसएमएल(1)1/2010-पं0स0-2594-2599.**—यह कि हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या आर0डी0डी0-II. बी(15)8/2000-1153-1351 दिनांक 18 अगस्त, 2007 के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर को विभाजित करके नए विकास खण्ड ननखरी का सृजन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 77 अनुसार इन विकास खण्डों में पृथक-2 पंचायत समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 8 तथा हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचए(4)-18/2000-3296 दिनांक 19-4-2010 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्ष 2010 में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन हेतु पंचायत समिति रामपुर तथा पंचायत समिति ननखरी के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के परिसीमन के प्रारूप को प्रकाशन हेतु समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3.8.2010 जारी करने उपरान्त 10 दिनों के भीतर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से आक्षेप प्रस्तुत करने आपेक्षित थे।

उक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में विकास खण्ड रामपुर व ननखरीसे आज तक किसी भी जनसाधारण से कोई आक्षेप अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई जिसके दृष्टिगत आक्षेप प्राप्ति हेतु निर्धारित समयावधि की समाप्ति उपरान्त पंचायत समिति रामपुर व ननखड़ी के वार्डों के परिसीमन की अन्तिम अधिसूचना जानी की जानी है। अतः मैं, जे0एस0राणा, उपायुक्त, शिमला जिला शिमला हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 8(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2010 में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन हेतु पंचायत समिति रामपुर तथा पंचायत समिति ननखड़ी के वार्डों के परिसीमन की संलग्न सारणी अनुसार अन्तिम रूप से अधिसूचना जारी करता हूं।

आदेश द्वारा,  
जे0एस0राणा,  
उपायुक्त,  
शिमला जिला शिमला।

वर्ष 2010 में होने वाले निर्वाचन हेतु पंचायत समिति रामपुर, जिला शिमला के प्रस्तावित वार्डों का पुर्नसीमाकन सारणी।

क0स0	वार्ड का नाम	वार्ड का विस्तार/ वार्ड में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	वार्ड की जनसंख्या
1	लवाना सदाना	1. लवाना सदाना 2. सरपारा	2295
2	फांचा	1. फांचा 2. चण्डी ब्रान्डा 3. कुट 4. क्याओ	3545
3	सराहन	1. सराहन	5100
4	शाहधार	1.शाहधार 2. किन्नू	3647
5	त्यावल ज्यूरी	1.ज्यूरी 2. बधाल	5628
6	गोपालपुर	1.गोपालपुर	3187
7	दोफदा	1.दोफदा	3552
8	मुनिश	1.मुनिश 2. काशापाट	3039
9	तकलेच	1.तकलेच 2. दरकाली	3081
10	नरैण	1.नरैण 2. बाहली	4203
11	दत्तनगर	1.दत्तनगर 2. भडावली	3266
12	देवठी	1.देवठी 2. कूहल	3381
13	डान्सा	1. डान्सा 2. लालसा	3873
14	शिंगला	1.शिंगला	3069
15	धारगौरा	1.धारगौरा	2752
16	झाकड़ी	1.झाकड़ी	6281
17	रचौली	1.रचौली	2907
18	देवनगर	1.देवनगर 2. नीरथ	2911
		<b>कुल जनसंख्या</b>	<b>65717</b>

हस्ताक्षरित /—  
उपायुक्त,  
शिमला, जिला शिमला।